

प्रेस नोट दिनांक 04.06.2022

थाना अलीगंज जनपद बरेली

थाना अलीगंज #bareillypolice द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्तों को किया गिरफ्तार तथा कब्जे से चोरी किये गये रूपये बरामद ।

दिनांक 31.05.2022 को वादी श्री शिवनारायन शर्मा पुत्र श्री सियाराम निवासी बिहारीपुर देहाजागीर थाना अलीगंज जिला बरेली ने तहरीरी सूचना अंकित करायी थी कि उन्होने 750000/- रू0 बैंक से निकाले थे तथा उनमे से राजेश खाद भंडार पर 150000/- रू0 शिवम पुत्र राजेश को दिये थे तथा 600000/- रू0 बैंग में रखकर पानी पीने लगे थे । उसी समय अज्ञात चोरों द्वारा उनका बैंग चोरी कर लिया गया था । जिस संबंध में थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0 117/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त अभियोग के संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी आंवाला महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा दिनांक 31.05.2022 को थाना अलीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात का सफल अनावरण करते हुये संबंधित अभियुक्तगण 1. सोयल आयु करीब 23 वर्ष पुत्र मुंशीलाल निवासी सिंग्वासा थाना कैंट जिला गुना (म0प्र0), 2. राजभान पारदी आयु करीब 25 वर्ष पुत्र मुंशीलाल पारदी निवासी वार्ड नं0 20 ग्राम सिंग्वासा थाना कैंट जिला गुना (म0प्र0), 3. मोरपाल पारदी आयु करीब 22 वर्ष पुत्र मुंशीलाल निवासी सिंग्वासा थाना कैंट जिला गुना (म0प्र0), 4. मनीष आयु करीब 32 वर्ष पुत्र काना जी मोगिया निवासी प्रकाश नगर बजनी, थाना दतिया जिला दतिया (म0प्र0) व एक बाल अपचारी हाल निवासीगण ग्राम रजऊ स्थित डेरा थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली को दि0 03.06.2022 को समय 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से 02 बैंग बरामद किये गये, जिनमे एक बैंग में चोरी किये गये सामान ATM CARD, बैंक बुक आदि बरामद हुये तथा इन सभी अभियुक्तों के कब्जे से 36000/- रूपये जो चोरी के थे बरामद हुए । पूछताछ पर इन सभी ने बताया कि 2,99,000/- रूपये बैंक खातों में जमा है तथा चोरी के रूपयों में से खरीदा गया एक मोबाइल कंपनी एप्पल कीमत 75000/- बरामद हुआ । रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर एक अभियुक्त राजीव पारदी पुत्र राहेलाल पारदी निवासी पिपरिया मावन थाना कैंट जिला गुना (म0प्र0) हाल निवासी ग्राम रजऊ स्थित डेरा थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम रवाना है । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है तथा अभियुक्तगण को जेल भेजा जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सोयल आयु करीब 23 वर्ष पुत्र मुंशीलाल निवासी सिंग्वासा थाना कैंट जिला गुना (म0प्र0),
2. राजभान पारदी आयु करीब 25 वर्ष पुत्र मुंशीलाल पारदी निवासी वार्ड नं0 20 ग्राम सिंग्वासा थाना कैंट जिला गुना (म0प्र0),
3. मोरपाल पारदी आयु करीब 22 वर्ष पुत्र मुंशीलाल निवासी सिंग्वासा थाना कैंट जिला गुना (म0प्र0),
4. मनीष आयु करीब 32 वर्ष पुत्र काना जी मोगिया निवासी प्रकाश नगर बजनी, थाना दतिया जिला दतिया (म0प्र0)
5. 01 बाल अपचारी आयु करीब 15 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त:- राजीव पारदी पुत्र राहेलाल पारदी निवासी पिपरिया मावन थाना कैंट जिला गुना (म0प्र0) हाल निवासी ग्राम रजऊ स्थित डेरा थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली ।

बरामदगी का विवरण:- चोरी के 36000 रू0 नकद बरामद, चोरी के रूपयों से खरीदा गया एक एप्पल का फोन कीमत 75000/- रू0, चोरी की घटना में प्रयुक्त 02 मो0सा0, एक मोबाइल कीपैड, ATM CARD, बैंक बुक एवं 299000/- रू0 अभियुक्तगण के बैंक में जमा है, खातों को होल्ड कराया जा चुका है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SO सुरेन्द्र कुमार सिंह थाना अलीगंज, बरेली
2. उ0नि0 श्री कैलाश चन्द्र थाना अलीगंज, बरेली
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना अलीगंज, बरेली
4. का0 1666 अभिषेक शर्मा थाना अलीगंज, बरेली
5. का0 2898 राजकुमार थाना अलीगंज, बरेली
6. का0 1794 मोहम्मद उमर थाना अलीगंज, बरेली
8. का0 2896 आशीष थाना अलीगंज, बरेली
9. का0 3658 मनोज कुमार थाना अलीगंज, बरेली
10. का0 3384 अक्षय त्यागी थाना अलीगंज, बरेली ।